

प्रियजन, नमस्कार!!

आपकी जानकारी हेतु हमारा *एक छोटासा-समर्पित-समूह* साधन-विहीन विद्यार्थियों का पूर्णतः-निःशुल्क शैक्षणिक मार्गदर्शन पिछले दस साल से निरंतर कार्य कर रहा है।

साथ ही इस पहल को सात साल पहले कोरोना आरंभ होने के काफी पहले से ऑनलाइन – मार्गदर्शन में बदल दिया था। इसका उद्देश्य उन इच्छुक-विद्यार्थियों को जोड़ना जो पारम्परिक पद्धति से इस प्रयास का लाभ नहीं ले पा रहे थे।

इस प्रयास में कक्षा ९ वीं से लेकर १२ वीं तक के विद्यार्थियों की गणित-विज्ञान विषयों के मूल सिद्धांतों को समझाकर उनमें प्रश्नों को हल करने की योग्यता विकसित करना है। जान-साधारण की अपेक्षा, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की है, की पूर्ति इस प्रयास में निरंतर शामिल होने से एक स्वाभाविक परिणाम है।

इस प्रयास का अगला सत्र १ अप्रैल से कक्षा ९ वीं, १० वीं, १२ वीं का चालू होगा। कक्षा ११ का सत्र, कक्षा १० वीं की NCERT-बोर्ड परीक्षा खत्म होने के पश्चात चालू होगा।

यह प्रयास पूर्णतः निःस्वार्थ एवं **व्यक्तिगत- सामाजिक-जिम्मेदारी (Personal Social Responsibility)** की अनुभूति से प्रेरित है।

आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे विद्यार्थियों, जो कॉविंग अथवा ट्यूशन नहीं ले सकते, परन्तु अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित हैं, को इस प्रयास का लाभ लेने के लिए उत्साहित करें।

इन विद्यार्थियों से अपेक्षा सिर्फ (१) सच्चाई, (२) नियमितता और (३) अपनी कठिनाइयों का प्रश्न-उत्तर के माध्यम से दूर करने की तत्परता है।

यह प्रयोजन **पूर्णतः ऑनलाइन** है इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि *विद्यार्थियों को इंटरनेट और मोबाइल/टेबलेट/कंप्यूटर या तो उपलब्ध है या स्थानीय व्यवस्था से उपलब्ध कराये जायेंगे।*

इस प्रयास को निरंतर चलाने और आगे बढ़ाने के लिए ऐसे **स्वैच्छिक शिक्षित-गण** जो निःस्वार्थ एवं व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी से सहभागी बनना चाहते उनका हार्दिक स्वागत है।

वे समाजसेवी, व्यक्ति एवं संस्थाएं, जो इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्थानीय स्तर पर प्रयोजन करने के लिए आमंत्रित हैं।

*इस प्रयास की आवश्यकता और तत्कालीनता को ध्यान में रखते हुए आपके सहयोग का निवेदन है।*

यहाँ यह कहना उचित होगा कि वंचित विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक मार्गदर्शन एक विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभूति है जिसकी तुलना अन्य सुखों से नहीं की जा सकती।

सम्पर्क सूत्र –

डॉ. सुभाष जोशी

(मोबाइल): 9711061199

ई-मेल:: subhashjoshi2107@gmail.com

**Democratize Education with a sense of Personal Social Responsibility (PSR)**